

लखनऊ 20 जून :भाषा: उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां ने सोशल नेटवर्किंग साइट “फेसबुक” पर किसी व्यक्ति द्वारा उनके नाम से “फर्जी अकउन्ट” खोल दिये जाने पर गहरी नाराजगी जताते हुए प्रदेश पुलिस के पत्र लिखकर इस मामले की यथाशीघ्र जांच करके दोषी व्यक्ति के वरिच्युद्ध समुचित करवाई किये जाने को कहा है।

खां ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “क्यापिय लोगों ने फेसबुक पर मेरे नाम से फर्जी अकउन्ट खोल लिया है, और इस संबंध में मैंने पुलिस महानदेशक के पत्र लिखकर दोषियों के वरिच्युद्ध सख्त करवाइर की मांग की है।”

इस मामले में पुलिस महानदेशक के चार पृष्ठ क पत्र भेजकर सारे मामले की जांच की मांग करने वाले खां ने कहा कि पिछले वर्ष भी उन्होंने इस संबंध में लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पत्र लिखा था , मगर कोई करवाई नहीं हुई और अब तो वह फर्जी अकउन्ट चलाने वाले ने सारी सीमायें तो दी है।

उन्होंने कहा कि उनके नाम से खोले गये “फर्जी अकउन्ट पर सांप्रदायिक उत्तेजना पैलाने वाली सामग्री पोस्ट की जा रही है , जिसे लेकर वे चिंतित हैं। खां ने बताया कि फेसबुक पर खुले उनके फर्जी अकउन्ट पर उनके हवाले से यह लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद इस्लाम में स्वीकार्य नहीं है, जबकि कटपिपणी में उनके हवाले से केन्द्रीय मंत्री सलमान खुरशीद के बारे में आपत्तजनक बात कही गयी है।

उन्होंने कहा, “यह कम शरारत भर नहीं है, बल्कि यह किसी ऐसे संगठन क काम है जो मेरी छवि खराब करना चाहता है।”

खां के नाम से खोले गये “फर्जी अकउन्ट” में उनके नाम की स्पेलिंग मूल से जरा अलग है, मगर उस पर उनका फोटो लगा है और उनके समाजवादी पार्टी क महासचिव तथा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने की जानकारी दी गयी है।

(भाषा)